



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 382 ]  
No. 382]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 1983/अश्विन 5, 1905  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 1983/ASVINA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1983

सा०का०नि० 751(अ):— केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियं-  
त्रण) आदेश, 1957 के खंड 3 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
के अनुसरण में, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट  
कीमत को, तुरन्त प्रभावी रूप से, प्रति टन ऐसी अधिकतम कीमत के  
रूप में नियत करती है जिस पर उक्त अनुसूची के स्तंभ 1 में  
उल्लिखित उर्वरकों का, जो दो वर्ष से अधिक समय तक भंडार में  
रखे गए उर्वरक हैं, “विशेष रिबेट स्कीम”, के अधीन वितरण  
किया जाएगा।

अनुसूची

दो वर्ष से अधिक समय तक भंडार में रखे गए उर्वरक का नाम	प्रति टन अधिकतम (शुद्ध) कीमत (रुपयों में)
--	---

1. यूरिया	1935
2. डाई अमोनियम फास्फेट	3015

स्पष्टीकरण:—ऊपर विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत में केन्द्रीय  
विक्रय कर, राज्य विक्रय कर या अन्य स्थानीय कर, चाहे फुटकर  
विक्रय प्रक्रम पर या मध्यवर्ती प्रक्रम पर, जहां कहीं भी वे उद्ग्रहणीय  
हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

टिप्पण:— यदि किसी उर्वरक का विक्रय एक बार में 5  
कि०ग्रा० से अनधिक मात्रा में किया जाता है तो व्यवहारी ऊपर

विनिर्दिष्ट आनुपातिक अधिकतम कीमत के अतिरिक्त निम्नलिखित लागत प्रभावित कर सकेगा, अर्थात् :—

- (क) 1-2 कि०ग्रा० के पैकिंग के लिए, 12 पैसे प्रति पैकिंग; और
- (ख) 2 कि०ग्रा० से अधिक और 5 कि०ग्रा० तक के पैकिंग के लिए, 15 पैसे प्रति पैकिंग।

[सं० 17-32/83-एम टी यू]

एम०एस० चहल, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agri. & Coopn.)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September 1983

**G.S.R. 751(E).**—In pursuance of the powers conferred by sub-clause (2) of clause 3 of the Fertiliser (Control) Order, 1957, the Central Government hereby fixes, with immediate effect, the price specified in column 2 of the Schedule hereto annexed, as the maximum price per tonne at which the fertilisers mentioned in column 1 of the said Schedule, being the fertilisers

stored for more than two years, shall be distributed under the "Special Rebate Scheme".

#### SCHEDULE

Name of Fertiliser stored for more than two years	Maximum price per tonne (Net) (in Rupees)
1. Urea	1935
2. Diammonium Phosphate	3015

Explanation:—The maximum prices specified above shall be exclusive of the Central Sales Tax, State Sales Tax or other local taxes wherever levied, whether at the retail sale point or at the intermediate stage.

Note:—When sale of any fertiliser is made in quantities not exceeding 5 Kilograms at a time, the dealer may charge the following cost in addition to the proportionate maximum price specified above.

- (a) For 1-2 Kg. packing, 12 paise per packing; and
- (b) For packing exceeding 2 Kg. and upto 5 Kg., 15 paise per packing.

[No. 17-32/83-STU]

M.S. CH AHAL, Jt. Secy.